



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 159]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 30, 1983/वैशाख 10, 1905

No. 159]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 30, 1983/VAISAKHA 10, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1983

बीमा

सा०का०वि० 360(अ):—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम, अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रषट्क शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम (वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी) वेतन नियम, 1981 का संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम (वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी) वेतन (संशोधन) नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम (वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी) वेतन नियम, 1981 में।

(क) उपनियम (1) और (2) में, “या वर्ग 4” शब्दों और अंकों का, जहाँ कहीं वे आते हैं, लोप किया जायेगा;

(ख) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:—

3. “नियम का कोई भी वर्ग 4 कर्मचारी किसी भी समय, मूल वेतन, विशेष वेतन, यदि कोई है, और महंगाई भत्ता (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) के रूप में प्रतिमास कुल मिलाकर 1600 रुपये से अधिक रकम प्राप्त नहीं करेगा।

4. जहाँ 30 अप्रैल, 1983 के ठीक पूर्व, नियम का कोई वर्ग 4 कर्मचारी मूल वेतन, विशेष वेतन, यदि कोई है, और महंगाई भत्ता के रूप में प्रतिमास कुल मिलाकर 1600 रुपये से अधिक रकम प्राप्त कर रहा है, वहाँ वह उपनियम (3) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी तारीख के पश्चात् वह रकम प्राप्त करता रहेगा, किन्तु वह रकम, जो 1600 रुपये से अधिक है, उसे उस समय तक संदेय वैयक्तिक भत्ता समझी जायेगी जब तक कि उसकी लिपिक की श्रेणी में प्रोन्नति नहीं हो जाती है और उसकी प्रोन्नति पर, ऐसा भत्ता उसकी मूल उपलब्धियों में शामिल कर दिया जायेगा”।

[फा 4/बीमा-III/83]

(कृ) कुसुमलता मिश्र, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 1983

INSURANCE

G.S.R. 360(E):—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of

1956), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Life Insurance Corporation of India (Class III and Class IV Employees) Pay Rules, 1981, namely —

1. **Short title and commencement**—(1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India (Class III and Class IV Employees) Pay (Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 3 of the Life Insurance Corporation of India (Class III and Class IV Employees) Pay Rules, 1981,—

(a) in sub-rule (1) and (2), the words and figures “or Class IV”, wherever they occur, shall be omitted;

(b) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(3) No Class IV employee of the Corporation shall, at any time, draw as basic pay, special pay, if any,

and dearness allowance (by whatever name called) an amount exceeding Rs. 1600/- per month in the aggregate,

(4) Where, immediately before the 30th day of April, 1983 any Class IV employee of the Corporation is in receipt of an amount exceeding Rs. 1600/- per month in the aggregate as basic pay, special pay, if any, and dearness allowance, he shall, notwithstanding anything contained in sub-rule (3) continue to receive such amount after such date, but so much of the amount as is in excess of Rs. 1600/- per month shall be deemed to be personal allowance payable to him until he is promoted to the clerical grade and such allowance shall, on his promotion, be absorbed in his total emoluments.”

[F.No.4/2/Ins. III/83]

(Km.) KUSUM LATA MITTAL, Addl Secy.